

Ref. No. Z-IV/R-39/D-2/NSE/207 & 174 Date: November 13, 2024

National Stock Exchange of India Ltd.	BSE Ltd.	
Listing Deptt., Exchange Plaza,	Regd. Office: Floor - 25,	
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),	Phiroze Jeejeebhoy Towers,	
Mumbai - 400 051	Dalal Street, Mumbai-400 001	
NSE Scrip: UNOMINDA	BSE Scrip: 532539	

Sub: - Submission of the Newspapers Clippings

Dear Sirs,

(Formerty known as Minda Industries Limited)

Pursuant to Regulation 47 and 52(8) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, we are pleased to inform that the Un-audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter and half year ended on September 30, 2024 as approved in the Board Meeting held on November 12, 2024 duly published on 13/11/2024 in "Economic Times" (English) and "Navbharat Times" (Hindi) newspapers.

The newspapers clippings are enclosed for your reference and record please.

nda

Thanking you,

Yours faithfully Uno Minda Limited

Tarun Kumar Srivastava

Company Secretary & Compliance M. No. A11994 Place: Manesar

Encl: as above.

Uno Minda Limited (Formerly known as Minda Industries Limited) Corporate Office: Village Nawada Fatehpur, P.O. Sikanderpur Badda, Manesar, Distt. Gurgaon, Haryana - 122004, INDIA. T: +91 124 2290427/28, 2290693/94/96 F: +91 124 2290676/95 Email: info@unominda.com www.unominda.com Regd. Office: B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi - 110052 CIN No.: L74899DL1992PLC050333

# EXPANSION OF BILATERAL AIR TREATIES

# **Boarding Soon: More Flights** to Vietnam and Uzbekistan

### Arindam Majumder

New Delhi: India has agreed to liberalise air treaty with Vietnam and Uzbekistan which will allow carriers from both flights.

People aware of the development said that the new agreement will allow Vietnamese carriers to increase flights from 28 flights to 42 flights per week while for Uzbekistan the quota has been increased from 14 to 28 flights per week.

The revisions are one of the rare instances where India has agreed to increase seats as expansion of bilateral rights with the Narendra Modi gove more access to foreign carriers since it first took charge in 2014.

lines which don't have enough exposure on international rosed by bigger global rivals. Flying rights are allocated on countries to launch more a bilateral reciprocal basis by the government to airlines of

their country. Airlines cannot operate more flights than they are allotted.



sions allowing airlines to hike capacity by 14,000 seats per week and launch new destinations.

unable to launch more flights has been a contentious issue, between India's metro cities--Delhi, Mumbai, Hyderabad, vernment resisting calls to gi- Chennai and Kolkata-to Vietnam and the rights were exhausted with 14 each by Vietnam Airlines and VietJet.

This, the government said, is However, under the Indiaaimed at protecting Indianair- ASEAN agreement, airlines of the country can launch unlimited flights to 18 other cities utes and would easily be eclip- like Ahmedabad, Lucknow, and Bhubaneswar.

The extension will allow Vietnam Airlines and Vietjet to launch flights to Ho Chi Minh and Hanoi from Hyderabad and Bengaluru which they were unable to due to the exhaus-

In March, India tion of capacity. "Vietnam is a hot-selling desand Thailand agretination from India driven by ed to similar reviincrease in flight connectivity. Vietnam Airlines with its A350 aircraft is the first full

service carrier on the route Vietnamese carriers were which will appeal to the premium travellers," Nguyen Trung Hieu, Vietnam Airlines country manager India had told ET. Similarly, between India and Uzbekistan, IndiGo and Uzbekistan Airways operate flights between the two countries.

almost 50% of the cardiac seg-

ment, is experiencing stagna-

# Pharma Mkt Sees 6.1% Growth in Oct Despite Subdued Volumes

pertensives, which account for

# **BALAJI INDUSTRIES LIMITED** JAI

Registered Office : 5, Bentinck Street, Kolkata - 700001 Phone : (033) 2248-9808, Fax : (033) 2243-0021 Email : jaibalaji@jaibalajigroup.com, Website : www.jaibalajigroup.com CIN: L27102WB1999PLC089755

EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE SECOND QUARTER & HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2024

(₹ in Crores)

				Stand	alone					Conso	lidated		
	Particulars	Quarter Ended			Six Mont	Six Months Ended Year Ended			Quarter Endeo	1	Six Months Ended		Year Ended
SI. Vo.		30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.23	31.03.2024
10.		(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Audited)
1	Total income from operations	1,578.52	1,727.81	1,574.22	3,306.33	3,064.61	6,628.87	1,578.52	1,727.81	1,574.22	3,306.33	3,064.61	6,628.87
	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)		287.29	201.55	500.03	371.98	963.21	212.74	287.29	201.55	500.03	371.98	963.21
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)		287.29	201.55	500.03	371.98	963.21	212.74	287.29	201.55	500.03	371.98	963.21
	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)		208.82	201.55	361.98	371.98	879.56	153.16	208.82	201.55	361.98	371.98	879.56
5	Total Comprehensive Income for the period {Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)}		208.82	201.55	361.98	371.98	878.75	153.16	208.82	201.55	361.98	371.98	878.75
	Equity Share Capital	182.45	177.45	160.45	182.45	160.45	163.65	182.45	177.45	160.45	182.45	160.45	163.65
8	Other Equity Earnings Per Share (EPS) (of ₹ 10/- each) (not annualised)						1,340.47	-	-			-	1,340.47
- 1	(a) Basic (in ₹)	8.42	12.10	12.79	20.42	24.13	55.80	8.42	12.10	12.79	20.42	24.13	55.80
	(b) Diluted (in ₹)	8.42	11.76	at a surface of	20.42	20.83	49.82	8.42	11.76	11.22	20.42	20.83	49.82

Majority of growth driven by pricing, new launches: Data

### **Teena Thacker**

New Delhi: The Indian pharmaceutical market posted a 6.1% value growth in October, led by therapies including cardiac and dermatology, even as sales volume dipped year-onyear, data from market research firm Pharmarack showed.

"Majority of the therapies are showing a positive growth, though unit growth continues to be a challenge for the current month (November)," said Sheetal Sapale, vice presidentcommercial, Pharmarack.

The growth is driven price and new introductions while most therapies have seen a drop in volumes, she said.

Amongst the top 10 therapies that contribute to more than 90% of the Indian pharma market, price drove growth in the cardiac segment. The anti-hy-

# Imbalanced Growth · Majority of therapies

show positive growth **Cardiac Segment** Price has driven

growth of market In anti-hypertensives. volume growth is stagnated

Diabetes Segment Many products

have lost patents New launches drive the growth

In Anti diabetes, the OED combinations have shown negative volume growth

# **Gynaecological Section**

 Hormones brought down volume growth

 New launches pushed growth of market

ted volume growth. Lipid-lowering drugs and platelet aggregation inhibitors have shown a relatively higher growth to help boost the cardiac segment. In the anti-infective segment, antibacterials-which contribute to almost 87%-have brought down the volumes. Antifungals, on the other hand, ha-

ve grown in volumes. Antacids, which contribute to almost 40% of the gastro segment, have seen a fall in sales volume whereas laxatives, probiotics, anti-infectives and anti-diarrheal have shown volumegrowth. "These are the ones which have pushed up the volume growth whereas the anta-

# cids are the ones which have pulled down the growth of the suggests. segment," Sapale said.

In the anti-diabetes segment, the oral anti-diabetics combi- to 70% of the nutrition market, nations have shown a negative volume growth while a good amount of growth is seen to be segment. Calcium products coming through new introductions as many products have lost patents, Pharmarack data tionist category is lesser.

Place : Kolkata

Date : 12th November, 2024

Vitamins and nutraceuticals,

which collectively contribute

have shown a fall in volumes,

pushing down growth of this

and others, too, posted a fall but

their contribution to the nutri-



# APEEJAY SURRENDRA PARK HOTELS LIMITED

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTSFOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2024

(Rs. in crores, unless otherwise stated Year Quarter ended Six months ended

a) The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges for the second quarter & half year ended 30th September, 2024 under Regulation 33 of the SEBI (Lisiting Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results for the second quarter & half year ended 30th September, 2024 are available on the Stock Exchange websites viz. www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's Website.

b) The above Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 12.11.2024.

c) Figures for the previous period/year have been re-grouped/re-arranged whereever necessary, to make them comparable.

FOR JAI BALAJI INDUSTRIES LIMITED Aditya Jajodia (Chairman & Managing Director)

(DIN: 00045114)

# **Uno Minda Limited**



(Formerly known as Minda Industries Ltd.) (CIN: L74899DL1992PLC050333) REGD. OFFICE: B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052 CORP. OFFICE: Village Nawada Fatehpur, P. O. Sikandarpur Badda, Near IMT Manesar, Gurgaon (Haryana) - 122004

Tel.: +91 124 2290427/28, 2290693/94/96

E-mail: investor@unominda.com, Website: www.unominda.com

# **EXTRACTS OF THE CONSOLIDATED & STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024**

		Conso	lidated							Stand	dalone			
Qu	arter En	ded	Half Yea	r Ended	Year Ended		PARTICULARS	Quarter Ended			Half Yea	r Ended	Year Ended	
30-09-2024	30-06-2024	30-09-2023	30-09-2024	30-09-2023	31-03-2024	1		30-09-2024	30-06-2024	30-09-2023	30-09-2024	30-09-2023	31-03-2024	
Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited	1.1	<u></u>	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited	
4244.79	3,817.51	3,621.30	8,062.30	6,713.96	14,030.89	1	Total income from Operations	2693	2451.55	2300.88	5144.55	4246.87	8983.30	
336.07	277.47	311.05	613.54	535.08	1,165.21	2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra-Ordinary items)	310.97	158.96	218.32	469.93	375.05	730.32	
344.61	277.47	311.05	622.08	535.08	1,191.83	3	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extra-Ordinary items)	310.97	158.96	218.32	469.93	375.05	730.32	
266.16	210.80	237.71	476.96	417.88	924.71	4	Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extra-Ordinary items)	275.56	122.96	176.34	398.52	311.50	585.83	
256.69	199.84	212.26	456.53	369.94	886.78	5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income(after tax)]	256.49	113.92	151.25	370.41	267.84	538.01	
114.83	114.83	114.63	114.83	114.63	114.82	6	"Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs. 2 per share)"	114.83	114.83	114.63	114.83	114.63	114.82	
	10			78	4827.95	7	"Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of Previous Year)"				(5)		3690.6	
						8	"Earnings Per Share (face value of Rs. 2 each) (for continuing and discontinuing operations) (not annualised)."							
4.27	3.47	3.93	7.74	6.94	15.36		a) Basic EPS (in Rs.)	4.80	2.14	3.03	6.94	5.38	10.22	
4.26	3.46	3.92	7.72	6.93	15.34		b) Diluted EPS (in Rs.)	4.79	2.13	3.02	6.92	5.37	10.2	

S.	Deutleuleur					ended	
No.	Particulars	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023*	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
I	Total income	156.33	138.23	141.49	294.56	272.31	591.71
11	Profit before Finance costs, Depreciation and amortisation expense and Tax	56.33	41.69	50.89	98.02	90.90	205.24
Ш	Profit before tax for the period/year	38.92	24.61	21.43	63.53	33.63	88.66
IV	Profit/(Loss) after tax for the period/year	26.76	(1.91)	14.82	24.85	22.94	68.77
۷	Total comprehensive Income/(loss) for the period/year, net of tax	27.97	(2.35)	14.59	25.61	22.41	67.01
VI	Paid-up Equity Share Capital (Face value per share - Re. 1 each)	21.34	21.34	17.47	21.34	17.47	21.34
VII	Other equity		-	-	-		1,176.65
	Earnings/(loss) per equity share of face value of Re.1 each attributable to equity holders of the parent (EPS)	<			A		
VIII	Basic (Rs.)	1.25	(0.09)	0.85	1.16	1.31	3.82
4	Diluted (Rs.)	1.25	(0.09)	0.85	1.16	1.31	3.82
		(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(annualised)

'Refer note 4 of accompanying notes to unaudited consolidated financial results.

See accompanying notes to unaudited consolidated financial results.

# Notes to unaudited consolidated financial Results

- 1. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) www.nseindia.com (NSE) and www.bseindia.com (BSE) and the Company www.asphl.in.
- 2. The above financial results of the Company as published in accordance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended ('Listing Regulations') have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 11 November 2024. These financial results have been prepared in accordance with recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India. Limited Review under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been carried out by the statutory auditors of the Company. The auditors have expressed an unmodified report on the Financial Results of the Company. For more details on results, visit investors section of our website at www.asphl.in and Financial Results at Corporate Section of www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For and on behalf of the Board of Directors of Apeejay Surrendra Park Hotels Limited Vijay Dewan Managing Director DIN: 00051164

# CIN: L85110WB1987PLC222139

# Additional Information on Standalone Financial Resulte

17 In Croroe)

S. No.	PARTICULARS	Quarter	Ended	Year Ended
	Securities Premium Account Net worth Outstanding Debt Debt Equity Ratio	30-09-2024	30-09-2023	31-03-2024
		Un-Audited	Un-Audited	Audited
1.	Securities Premium Account	1462.98	1405.08	1460.96
2.	Net worth	4107.64	3509.74	3805.49
3.	Outstanding Debt	1324.28	765.79	925.60
4.	Debt Equity Ratio	0.34	0.23	0.25
5.	Capital Redemption Reserve	18.39	18.39	18.39
6.	Debt Service Coverage Ratio	4.73	4.55	6.27
7.	Interest Service Coverage Ratio	12.64	16.88	14.47

## Notes:-

Place : Gurgaon (Haryana)

Date : November 12, 2024

1) The Standalone and Consolidated Un-Audited Financial Results for the guarter and half year ended on September 30, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on November 12, 2024.

- 2) The above is an extract of the detailed format of the financial results of the company for the quarter and half year ended on September 30, 2024 filed with stock exchanges pursuant to Regulation 33 & 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of both these results (standalone and consolidated) are available on the stock exchange website(s) NSE website (www.nseindia.com), BSE website (www.bseindia.com) and on Company's website (www.unominda.com).
- 3) For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) (NSE & BSE) and can be accessed on the NSE website (www.nseindia.com), BSE website (www.bseindia.com) and on Company's website (www.unominda.com).




For and on behalf of the Board of **Uno Minda Limited** 


NIRMAL K. MINDA Chairman & Managing Director DIN: 00014942



"Uno Minda Limited is a flagship company of UNO MINDA Group. The Group is a Tier 1 Auto Component Supplier to all leading OEMs in India and across the Globe

Place: Kolkata Date: November 11, 2024







by its employees-more so, as

they will have to pay tax befo-

re the stocks can be sold on the

open market. Staffers will be

gy's current share price and

According to Swiggy's pro-

spectus, the company has rol-

- one each in 2015, 2021 and

2024. This aggregates to a pool

have been exercised into sha-

res, while the remaining are

# **Partners Many Platforms** for Conversion of Esops

### ►> From Page 1

Swiggy's archrival Zomato, consumer internet firms. one of the first large domestic consumer internet startups to go public in July 2021, minted 18 dollar millionaires through its 9,375 crore IPO.

At the time of Paytm's IPO in November 2021, around 350 employees (both existing and former) became crorepatis. Swiggy's ₹11,300-crore IPO will be the biggest public offering by a technology firm since Paytm's in 2021. Swiggy's public issue was subscribed 3.59 times primarily driven by interest from institutional investors. The company had set a price band of ₹371-390 apiece for the IPO.

### ESOP BOOM

The trend of Esop allocation, made famous early on by IT Swiggy has partnered with



Name	Designation	Esops Granted Under 2024 Plan (₹ cr)*
<ul> <li>Sriharsha Majety</li> </ul>	Cofounder & Group CEO	1,894.11
Amitesh Jha	CEO, Instamart	126.41

services majors such as Info- multiple platforms to finance sys, is especially prevalent in the Esop conversion to stock Typically, these companies grant additional stock options to founders and senior mana-

gement as in- taxed during the conversion centives ahe- of Esops, which will be appliad of a public ed on the difference of Swig-Swiggy's listing. 711,300-crore However, the the price at which the Esops **IPO** will be wealth crea- were granted. the biggest tion opportupublic nity for a broa- SWIGGY ESOP SCHEMES offering by a der set of emp-

technology loyees, as seen firm since in Swiggy's led out three Esop plans so far Paytm's in case, can have 2021 multiple ripp-

le effects. Many of the newly of almost 230 million shares. minted 'crorepatis' often cho- Of these, nine million options ose to start up on their own. It also boosts spending on real estate and other assets.

yet to be exercised. People in the know said Earlier, ET had reported that the founders and top manage-

WEALTH GENERATION

Even though the massive Esop

pools can appear as 'wealth on paper', consumer internet

firms have periodically offe-

red employees options to liquidate their holdings. In 2023,

Flipkart made a one-time pay-

out of \$700 million to current

and former staff as part of its

separation from PhonePe,

when the payments firm mo-

ved domicile from Singapore

Similarly, payments firm Razorpay has conducted four Esop buybacks aggregating to above \$90 million for more

than 1,900 of its employees bet-

ween 2018 and 2022.

to India.

ment of Swiggy were granted Esops worth nearly ₹2,600 crore in its latest stock ownership plan. These include founder and group CEO Sriharsha Majety, cofounders Nandan Reddy and Phani Kishan Addepalli, chief financial officer Rahul Bothra, chief technology officer Madhusudhan Rao, food marketplace CEO Rohit Kapoor, and newly appointed CEO of Swiggy Instamart, Amitesh Jha.

# MINDA CORPORATION LIMITED

**REGD. OFFICE :** A-15, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi- 110052

CIN: L74899DL1985PLC020401 Tel.: +91 120-4442500, Fax.: +91 120-4787201

E-mail: investor@mindacorporation.com, Website: www.sparkminda.com

# EXTRACTS OF THE CONSOLIDATED AND STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024 (Rs. in lakhs)

			Consc	lidated			Stand	dalone	
		(	Quarter Ende	d	Year Ended	(	Year Ended		
	Particulars	September 30, 2024	June 30, 2024	September 30, 2023	March 31, 2024	September 30, 2024	June 30, 2024	September 30, 2023	March 31, 2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total income from operations	1,30,166	1,20,073	1,19,787	4,66,688	1,07,060	97,569	99,228	3,85,874
2.	Net Profit for the period (before tax)	9,593	8,444	7,700	30,848	8,329	6,953	6,422	26,028
3.	Net Profit for the period (after tax)	7,434	6,420	5,877	22,722	6,267	5,160	4,777	18,847
4.	Total comprehensive income for the period {comprising Profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)}	8,200	6,114	22,741	42,170	6,303	5,160	21,848	38,730
5.	Equity Share Capital	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782
6.	Other Equity				1,93,284				1,69,038
7.	Net Worth	2,10,228	2,04,181	1,87,705	1,98,066	1,83,132	1,78,993	1,64,999	1,73,820
8.	Earnings Per Share (of ₹ 2/- each) (not annualised) a) Basic (in ₹) b) Diluted (in ₹)	3.16 3.11	2.73 2.69		9.65 9.49	2.62 2.62	2.16 2.16		7.88 7.88
9.	Debt Equity Ratio (in times)	0.16	0.16	0.32	0.18	0.19	0.20	0.37	0.21
1(	). Debt Service Coverage Ratio (in times)	0.49	0.47	0.25	1.57	0.40	0.37	0.21	1.27
11	I. Interest Service Coverage Ratio (in times)	12.33	12.28	7.71	8.03	10.61	10.36	6.51	6.92
12	2. Capital Redemption Reserve	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920

# NOTES:

1. The above financial results were reviewed by the Audit committee on November 12, 2024 and approved by the Board of Directors at their meeting held on the same date



0	Rohit Kapoor	CEO, Food Marketplace	92.63
00	Rahul Bothra	Chief Financial Officer	81.73
N.	Madhusudhan Rao	Chief Technology Officer	81.73
	Girish Menon	Chief Human Resources Officer	81.73
0	Phani Kishan	Cofounder and Chief Growth Officer	81.73
ge.	Nandan Reddy	Cofounder and Head of Innovation	81.73
	Ashwath Swaminathan**	Former Chief Growth and Marketing Officer	54.48

\*At share price of ₹390; \*\* Swaminathan resigned effective September 30 Note: Vesting period of 1-8 years from date of grant Source: Swiggy IPO prospectus

# **Uno Minda Limited**

(Formerly known as Minda Industries Ltd.)

DRIVING THE NEW

UNO MINDA

(CIN: L74899DL1992PLC050333)

REGD. OFFICE: B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052

CORP. OFFICE: Village Nawada Fatehpur, P. O. Sikandarpur Badda,

Near IMT Manesar, Gurgaon (Haryana) - 122004

Tel.: +91 124 2290427/28, 2290693/94/96

E-mail: investor@unominda.com, Website: www.unominda.com

# **EXTRACTS OF THE CONSOLIDATED & STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL** RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024

# (₹ In Crores)

		Conso	lidated			an				Stand	dalone		
Qu	arter En	ded	Half Yea	r Ended	Year Ended		PARTICULARS	Qu	arter En	ded	Half Yea	ar Ended	Year Ended
30-09-2024	30-06-2024	30-09-2023	30-09-2024	30-09-2023	31-03-2024	2	TANITODANO	30-09-2024	30-06-2024	30-09-2023	30-09-2024	30-09-2023	31-03-2024
Un-Audited		Un-Audited	Un-Audited		Audited	6. 		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited
4244.79	3,817.51	3,621.30	8,062.30	6,713.96	14,030.89	1	Total income from Operations	2693	2451.55	2300.88	5144.55	4246.87	8983.3
336.07	277.47	311.05	613.54	535.08	1,165.21	2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra-Ordinary items)	310.97	158.96	218.32	469.93	375.05	730.3
344.61	277.47	311.05	622.08	535.08	1,191.83	3	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extra-Ordinary items)	310.97	158.96	218.32	469.93	375.05	730.32
266.16	210.80	237.71	476.96	417.88	924.71	4	Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extra-Ordinary items)	275.56	122.96	176.34	398.52	311.50	585.83
256.69	199.84	212.26	456.53	369.94	886.78	5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income(after tax)]	256.49	113.92	151.25	370.41	267.84	538.0
114.83	114.83	114.63	114.83	114.63	114.82	6	"Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs. 2 per share)"	114.83	114.83	114.63	114.83	114.63	114.8
	1270	÷	20		4827.95	7	"Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of Previous Year)"	2	-	÷		17	3690.6
						8	"Earnings Per Share (face value of Rs. 2 each) (for continuing and discontinuing operations) (not annualised)."						
4.27	3.47	3.93	7.74	6.94	15.36		a) Basic EPS (in Rs.)	4.80	2.14	3.03	6.94	5.38	10.2
4.26	3.46	3.92	7.72	6.93	15.34		b) Diluted EPS (in Rs.)	4.79	2.13	3.02	6.92	5.37	10.2
Addi	itional In	formatio	on on Sta	Indalone	Financia	al I	Results :					(₹	n Crores
S. N	lo.				PARTI	CL	ILARS			Quarter E	nded	Yea	r Ended
									30-09-	2024	30-09-202	23 31-	03-2024
									Un-Au	dited	Un-Audite	ed A	udited
1.		Securities	Premium /	Account					146	2.98	1405.0	8	1460.96
2.		Net worth							410	7.64	3509.7	4	3805.49
3.		Outstandir	ng Debt						132	4.28	765.7	9	925.60
4,		Debt Equit								0.34	0.2		0.25
5.			demption I	Reserve		-			-	8.39	18.3		18.39
6.				CALENDARY TOTAL					4.73		4.5	5	6.27
7.				where the second s								16.88 14.47	

- 2. The above results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 and read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.
- 3. The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the guarter and half year ended on September 30, 2024 filed with the Stock Exchanges pursuant to Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated results are available on the stock exchanges website(s): www.nseindia.com, www.bseindia.com and on Company's website at www.sparkminda.com.

For and on behalf of the Board of Directors Sd/-

Ashok Minda


Chairman & Group CEO

Place : New Delhi

Date : November 12, 2024

(₹ In Crores)

Minda Corporation is a flagship company of Spark Minda, one of the leading automotive component manufacturer in India with a pan-India presence and significant international footprint.



Figures above depict year on year comparison

## MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS OF RESULTS

BLS International reported highest-ever financial performance in Q2FY25.

- Revenue from Operations grew by 21.4% YoY to Rs. 495.0 Crores in Q2FY25 as compared to Rs. 407.7 Crores in Q2FY24. Q2FY25 EBITDA grew by 89.1% to Rs. 164.0 Crores from Rs. 86.7 Crores in Q2FY24. EBITDA Margin expanded to 33.1% in Q2FY25 from 21.3% in Q2FY24.
- Margin expansion was primarily due to the ongoing transition from partner run to self-managed model and the acquisition of iDATA, turkey which we acquired in July 2024.
- Management continues to focus on improving profitability and cash generation as key business performance metrics. Post iDATA acquisition of ~Rs. 720 Crores in Q2FY25.


The company's net cash balance stood at Rs. 902 Crores as of 30th September 2024.

The Company has generated significant returns for its shareholders: ROCE at 26.8% & ROE at 31.5% (based on H1FY25 annualized financials)

Consolidated financial results:-						(Rs. in Crores)
		Quarter Ended	i	Half Yea	r Ended	Year Ended
PARTICULARS	Sep 30, 2024 Unaudited	June 30, 2024 Unaudited	Sep 30, 2023 Unaudited	Sep 30, 2024 Unaudited	Sep 30, 2023 Unaudited	March 31, 2024 Audited
Total Income from Operations	495.01	492.67	407.74	987.68	791.22	1,676.81
Net Profit for the period (before tax & exceptional items)	163.96	134.71	87.18	298.67	167.62	352.07
Net Profit for the period (after tax & exceptional items)	145.73	120.78	82.00	266.52	152.99	325.62
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	126.99	119 78	95 91	246 78	167.96	336 34

### Notes:-

- 1) The Standalone and Consolidated Un-Audited Financial Results for the guarter and half year ended on September 30, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on November 12, 2024.
- 2) The above is an extract of the detailed format of the financial results of the company for the quarter and half year ended on September 30, 2024 filed with stock exchanges pursuant to Regulation 33 & 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of both these results (standalone and consolidated) are available on the stock exchange website(s) NSE website (www.nseindia.com), BSE website (www.bseindia.com) and on Company's website (www.unominda.com).
- 3) For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) (NSE & BSE) and can be accessed on the NSE website (www.nseindia.com), BSE website (www.bseindia.com) and on Company's website (www.unominda.com).



Place	•	Gurgaon (Haryana)	
Date	•	November 12, 2024	



### Notes:

1. Key Standalone financial Information is as under :-

(Rs. in Crores)

		Quarter Endeo	ł	Half Yea	Year Ended	
PARTICULARS	Sep 30, 2024 Unaudited	June 30, 2024 Unaudited	Sep 30, 2023 Unaudited	Sep 30, 2024 Unaudited	Sep 30, 2023 Unaudited	March 31, 2024 Audited
Total Income from Operations	34.25	37.69	27.57	71.94	55.11	118.64
Net Profit for the period (before tax & exceptional items)	18.15	1.96	15.76	20.11	18.71	40.21
Net Profit for the period (after tax & exceptional items)	18.67	1.45	14.79	20.12	16.94	37.01
Total Comprehensive Income for the period						
[Comprising Profit for the period (after tax) and Other						
Comprehensive Income (after tax)]	18.65	1.44	14.86	20.09	17.08	36.96

The above Financial Results were reviewed and recommended by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at their respective meetings held on November 11, 2024. These results have been subjected to limited review as required under SEBI (Listing Obligations and Disclosured) Requirements),2015 by the statutory auditors who have expressed an unmodified conclusion and the related report is being submitted to the concerned stock exchanges.

- The Group has acquired 100% stake of Citizenship Invest, DMCC, UAE, through it's wholly owned subsidiary BLS International FZE on October 04, 2024.
- The Holding Company has acquired 51% stake of SLW Media Private Limited ("SLW") on 17th October' 2024.

BLS E-Services Limited (subsidiary of Holding Company) has entered into a definitive share purchase agreement w.r.t to invest and acquire 57% equity shares of Aadifidelis Solutions Private Ltd. and it's Affiliates.

- On July 9,2024 BLS International FZE acquired 100% equity share capital of iDATA Danismanlik ve Hizmet Dis Ticaret Anonim Sirketi ""iData"" for a consideration of Rs. 719.73 Crores. The fair value of assets and liabilities acquired have been determined provisionally in accordance with IND AS 103 'Business Combinations' The excess of the consideration paid over the provisional fair value of net assets acquired of iData has resulted in a Goodwill amounting to Rs. 583.78 Crores. The Group believes that the information provides a reasonable basis for estimating the fair value of assets and liabilities acquired, but the potential for measurement period adjustments exists based on a continuing review of matters related to acquisition. The purchase price allocation is expected to be completed with in the current financial year. The above consolidated financial results for the guarter ended September 30, 2024 include the results of iData for the period starting from July 9, 2024 and hence not comparable with previous period."
- The equity shares of the BLS E-Services Limited(\* subsidiary company") got listed on BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") on February 06, 2024.
- BLS E-Services Limited (subsidiary of Holding Company) has received an amount of Rs 309.29 Crores being Gross proceeds from fresh issue of equity shares. Net proceeds after issue expenses in relation to Fresh issue are proposed to be utilized and the utilization thereof are summarized as below : (Rs in Crores)

	(RS. III CIDIES)					
OBJECT(S)	Amount as per final offer document	Amount utilised upto Sep 30,2024	Total unutilized amount upto Sep 30,2024			
Strengthening our technology infrastructure to develop new capabilities and		e				
consolidating our existing platforms	97.59	1.07	96.52			
Funding initiatives for organic growth by setting up of BLS Stores	74.78	<b>.</b>	74.78			
Achieving inorganic growth through acquisitions	28.71		28.71			
General Corporate Purpose	76.66	-2	76.66			
Total	277.74	1.07	276.67			


IPO proceeds which were un-utilized as at September 30,2024 were temporarily invested in term deposit amounting to Rs. 273.19 crores with scheduled bank and the balance amount lying in the Public Issue & Monitoring account.

The above is an extract of the detailed format of Quarter & Year ended Financial Results filed with the stock Exchanges Under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarter & Year ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com, www.bseindia.com and www.msei.in) and hosted on the company's website at (www.blsinternational.com)

> For BLS International Services Limited Diwakar Aggarwal

Place : New Delhi Date : 11th November, 2024

"Upo Minda Limited is a flagship company of UNO MINDA Group. The Group is a Tier 1 Auto Component Supplier to all leading OEMs in India and across the Globe





#### 11

# मैजिकब्रिक्स की नई सुविधा से

बायसे को आसानी

ओर डिवेलपर्स को भी ग्राहकों को जोडने में कई

बजट. स्थान आदि की जांच के बाद बायर्स की प्राथमिकताओं आधार पर प्रॉपर्टी की एक लिस्ट तैयार करते हैं। इसके बाद इसमें लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिलता है, जिससे प्रॉपर्टी का दौरा करना आसान हो जाता है। मैजिकब्रिक्स के सीईओ सुधीर पई ने कहा, 'इससे खरीदारों के लिए फैसला लेने की प्रक्रिया सरल हो गई। कुछ मामलों में बायर्स ने एक ही दिन में 4-5 प्रॉपर्टी देखीं, जिससे फैसले का समय करीब 50% तक कम हो गया।' मैजिकब्रिक्स ने 350 से ज्यादा प्रॉजेक्ट के लिए 16 हजार से ज्यादा साइट विजिट्स को सुगम बनाया

नए फैसले से बायर्स के

फैसला लेने की प्रक्रिया सरल हुई

एनबीटी न्यूजडेस्कः मैजिकब्रिक्स ने साइट विजिट प्रॉडक्ट लॉन्च किया है, जिससे प्रॉपर्टी विजिट्स में अंतिम-मील की चुनौतियां दूर हुई हैं। कई खरीदार व्यस्त दिनचर्या के कारण प्रॉपर्टी का चुनाव करते समय साइट विजिट नहीं कर पाते हैं। दूसरी

में करीब एक लाख 90 हजार जवान हैं। इनमें तकरीबन सात फीसदी महिलाएं हैं। 12 बटैलियन वाली CISF में मौजुदा

समय में एक भी बटैलियन महिला बटैलियन नहीं है। यह पहली बटैलियन होगी, जिसमें केवल महिलाएं होंगी। बल में महिला बटैलियन बनाने का प्रस्ताव 53वें सीआईएसएफ दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों के अनुरूप शुरू किया गया था, जिसे अब

इमरजेंसी में मोर्चा संभालेंगी महिला कमांडोः CISF अधिकारियों ने बताया कि ऑल वूमेन बटैलियन में 1025

कठिनाई होती है। इस प्रॉडक्ट के बाद

मंत्रालय ने मंजुरी दे दी है।

महिलाएं होंगी। इनमें अधिकतर को कमांडो ट्रेनिंग से ट्रेंड किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी के वक्त महिला बटैलियन की यह कमांडो मोर्चा शुरू कर दी गई थी। फिलहाल CISF संभाल सकें। Hi-Fashion winter collection 2024

Branded Sweaters, Jackets, eat Shirts & Lowers Sweaters å WOMEN & KIDS WEAR By Economy Sales: 921275842 ARROW Raymond | Colorplus Levi's PARK AVENUE GURUGRAM 306, City Center, Sector 29 (Near Hotel Pllazio) CURUCHAM 306, City Center, Sector 29 (Near Hoter Hazio)
PUNCHKUIAN ROAD, Garwal Bhawan, (Near Jhandewalan, Gole Chkr.)
WAZIRPUR A-5, Near Richi Rich Banquet (Opp. Shalimar Bagh)
JANAKPURI B-1/2, Main Najafgarh Road, Opp. Metro Pillar 543
NOIDA, Nirula's Sec-2, Near Metro Station, Sec-15, Noida, UP
LAJPAT NAGAR, 49, Main Ring Road, Adj. Haldi Ram, Near Moolchand Crossing

CISF के लिए पहली महिला रिज़र्व बट्टैलियन को मंजूरी 🔳 विशेष संवाददाता, नई दिल्ली केंद्र सरकार ने हवाई अड्डों और दूसरे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर बढ़ती ड्यूटी को

ध्यान में रखते हुए 1,000 से अधिक कर्मियों वाली पहली महिला केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) रिजर्व बटैलियन को मंजूरी दी है। CISF में अभी 1.90 लाख से ज्यादा जवान हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस सप्ताह एक मंजूरी आदेश जारी किया, जिसमें एक वरिष्ठ कमांडेंट रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में 1,025 कर्मियों की कुल शक्ति के साथ बल में एक विशेष महिला रिजर्व इकाई को मंजूरी दी गई। इसमें अधिकतर महिलाओं को कमांडो ट्रेनिंग से ट्रेंड किया जाएगा। CISF के पास वर्तमान में 12

रिजर्व बटैलियन हैं। यह बटैलियन देश की संसद को सुरक्षा प्रदान करने वाली CISF को मिली जिम्मेदारी को देखते हुए भी बेहद खास होगी। CISF के डीआईजी दीपक वर्मा ने बताया कि गृह मंत्रालय की मंजूरी के साथ ही इस पर काम करना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए भर्ती प्रक्रिया भी

और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 5 करोड़ रुपये मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने दावा किया कि कर्नाटक के रायचूर से गिरफ्तार सोहेल पाशा अपने लिखें एक गीत को मशहर करना चाहता था और इसके लिए उसने यह हथकंडा अपनाया। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के वट्सऐप हेल्पलाइन पर 7 नवंबर को कई धमकी भरे संदेश

सलमान को धमकी देने में गीतकार अरेस्ट ■पीटीआई, मुंबई मुंबई पुलिस ने

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को कथित तौर पर धमकी भरे संदेश भेजने

पता चला था कि मुंबई के एक थाने में दर्ज रिपोर्ट में जिस मोबाइल नंबर से धमकी दी गई थी, वह वकील फैजान के

🛞 पूर्वोत्तर रेलवे

रत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर / कार्य, वास्ते मुख्य कारखान प्रबन्धक यांत्रिक कारखाना गोरखपुर द्वारा नीचे लिखे कार्य के लिये आनलाईन (ई—टेन्डरिंग) के माध्यम से खुली ई—निविदा आमंत्रित की जाती है। क्रम सं0 1:- ई-निविदा सूचना सं0 एवं निविदा कार्य का विवरणः टेण्डर नंo—''33—जीकेपी– एमडब्ल्यूएस–2024–25'' ''ईपॉक्सी फ्लोरिंग एण्ड विनायल ग्राफिक पैच वर्क इन लेवोटरी एरिया ऑफ एलएचबी/आईसीएफ (एसी/नॉन–एसी) कोचेस इन मैकेनिकल

देश-विदेश

मंगलवार को एक उभरते गीतकार को

आए थे।। शाहरुख केस में भी वकील अरेस्टः छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक वकील को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने और 50 लाख रुपये मांगने के आरोप में मंगलवार को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। वकील ने बताया कि उनका मोबाइल खो गया था, जिसकी पुलिस में शिकायत भी दी थी। जांच में

नाम पर रजिस्टर्ड था। हालांकि फैजान ने कहा कि मोबाइल खो गया था।

जिले में बोरोबेकरा थाने पर संदिग्ध उग्रवादियों के हमले के बाद लापता हुए तीन नाबालिगों समेत छह लोगों का पता लगाने के लिए बचाव अभियान जारी है। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर उग्रवादियों की ओर से कैद

किए गए छह लापता लोगों की कथित तस्वीरों की पुष्टि नहीं हो सकी है और उनका पता लगने तक बचाव अभियान जारी रहेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा कि सोमवार दोपहर थाने और पास के सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ था।

हमले के बाद से छह

लापता, तलाश जारी

पीटीआई, इंफालः मणिपूर पुलिस

ने मंगलवार को बताया कि जिरीबाम

कर्मी को अपने शिविर परिसर से बाहर जाने में ट्रांसफर किया जाए।' हमार छात्र संघ की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस नोटिस का (HSA) ने घटना की सीबीआई जांच उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले किसी भी की मांग की। गोलीबारी में मारे गए लोगों सीआरपीएफ कर्मी को अपने जोखिम और की पहचान कुकी-जो संगठनों ने हमार समुदाय से संबंधित ग्रामीण स्वयंसेवकों के जिम्मेदारी पर ऐसा करना होगा। यह निर्देश रूप में की। हमार बडे ककी-जो समदाय इस नोटिस के जारी होने के तुरंत बाद

से लैस उग्रवादियों ने जिरीबाम जिले में जब तक सीआरपीएफ सार्वजनिक रूप

स्कूल

कॉलेज और

बाजार बंद

रहे, सडकों

पर सन्नाटा

मणिपुर के जिरीबाम में 10 उग्रवादियों की मौत के बाद शटडाउन

से जिरीबाम में अपने बर्बर कार्यों के लिए

स्वीकार नहीं करता और माफी

नहीं मांगता।' जोमी छात्र संघ

(ZSF) ने गोलीबारी की कोर्ट

की निगरानी में जांच की मांग

की। ZSF ने कहा, 'हम आगे

मांग करते हैं कि 'फर्जी मुठभेड़'

की कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराई

जाए और जो भी सीआरपीएफ या दूसरे

अधिकारी इसमें शामिल हैं, उन्हें दूसरे राज्य

#### मुंबई कॉन्सुलेट में अफगान 'डिप्लोमैट' की नियुक्ति स्कॉलरशिप पर भारत में सात साल पढाई Alpyu.Singh काउंसलर होने का दावा

तालिबान के कंट्रोल वाली

हालांकि भारत की ओर से

अभी कोई आधिकारिक

ये नियुक्ति बतौर काउंसलर हुई है। इसे

लेकर भारत की ओर से कोई आधिकारिक

प्रतिक्रिया तो अभी तक सामने नहीं आई

प्रतिक्रिया नहीं आई

किया दावा

अफगान न्यूज एजेंसी ने

प्रभावी हो जाएगा और तब तक लागू रहेगा का हिस्सा हैं।

@timesofindia.com

नई दिल्लीः बीते हफ्ते काबुल में तालिबान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला मुहम्मद याकूब से भारतीय अधिकारियों की मुलाकात के बाद दोनों देशों को लेकर अब एक और बड़ी खबर सामने आई है। तालिबान के कंट्रोल वाली अफगान न्यूज एजेंसी बख्तर न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इकरामुद्दीन कामिल नाम के एक शख्स की मुंबई कॉन्सुलेट

#### है, लेकिन सरकार से जुडे सूत्रों ने कहा है में नियुक्ति की है। दावा किया गया है कि कि ये एक युवा छात्र हैं, जिसने एमईए की

### ऊनो मिंडा लिमिटेड (पूर्व की मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड)

(CIN: L74899DL1992PLC050333)

पंजीकृत कार्यालयः बी-64/1, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052

कॉपोर्रेट कार्यालयः ग्राम नवादा फतेहपुर, पो.ऑ. सिकंदरपुर बद्दा,

निकट आईएमटी मानेसर, गुड़गांव (हरियाणा) -122004

दूरभाषः +91 124 2290427/28, 2290693/94/96

ई-मेलः investor@unominda.com वेबसाइटः www.unominda.com

30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के स्टैंडएलोन एवं समेकित अलेखापरीक्षित

30.09.2023 अलेखा परीक्षित 2300.88	समाप्त छमाई 30.09.2024 अलेखा	T	समाप्त वर्ष
अलेखा परीक्षित 2300.88	A set and set		
परीक्षित 2300.88	अलेखा	30.09.2023	31.03.2024
CHARLES & Xuerre	परीक्षित	अलेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित
00000000000	5144.55	4246.87	8983.30
218.32	469.93	375.05	730.32
218.32	469.93	375.05	730.32
176.34	398.52	311.50	585.83
151.25	370.41	267.84	538.01
114.63	114.83	114.63	114.82
-	82	22	3690.67
3.03	6.94	5.38	10.22
3.02	6.92	5.37	10.21
		(	करोड़ में)
		समाप्त वष	f
30-09-202	23	31-	-03-2024
ारीक्षित		लेखापरीक्षि	त
1405.08	2		1460.96
3509.74		1	3805.49
765.79	i l		925.60
0.23	i i		0.25
18.39			18.39
4.55	2		6.27
4.55	8		14.47
	176.34 151.25 114.63 3.03 3.03 3.02 30-09-202 1187 1405.08 3509.74 1405.08 3509.74 765.79 0.23	176.34     398.52       176.34     398.52       151.25     370.41       114.63     114.83       114.63     114.83       3.03     6.94       3.03     6.92       3.02     6.92       3.03     6.94       3.02     6.92       3.03     6.94       3.02     6.92       3.03     6.94       3.04     100.08       3509.74     100.03       765.79     0.23	176.34         398.52         311.50           176.34         398.52         311.50           151.25         370.41         267.84           114.63         114.83         114.63           114.63         114.83         114.63           3.03         6.94         5.38           3.02         6.92         5.37           (1           (1           3.03         6.94         5.38           3.02         6.92         5.37           (1           (1           3.02         6.92         5.37           (1           (1           (1           (1           (1           (1           (1           (1           (1           (1           (1           (1           (1           (1           (1           (1           (1           (1           (1

शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल नोटिस की मांग कर साउथ एशिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट अपराध की है। इस शख्स ने अफगान कॉन्सुलेट में अफगान नागरिकों की मदद के लिए बतौर

मणिपुर के अधिकतर इलाकों में मंगलवार को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही।

डिप्लोमैट काम करना मंजूर किया है। सत्रों का कहना है कि जहां तक उसके स्टेटस का संबंध है तो वो एक अफगान नागरिक है, जो कि अफगान के लोगों के लिए भारत में काम कर रहा है। सुत्रों का कहना है कि जहां तक तालिबान को मान्यता देने की बात है तो किसी भी सरकार को मान्यता देने की एक तय

प्रक्रिया होती है और भारत में अफगान

लोगों का बडा समुदाय मौजुद है।

भाषा, ढाकाः बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण (आईसीटी) के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने पुलिस महानिरीक्षक मोहम्मद मोइनुल इस्लाम को पत्र लिखकर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ इंटरपोल के माध्यम से रेड नोटिस जारी करवाने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की। बांग्ला भाषा के अखबार 'प्रोथम आलो' ने आईसीटी के सूत्रों के हवाले से प्रकाशित खबर में यह जानकारी दी है। यह घटनाक्रम रविवार को कानून मामलों के सलाहकार आसिफ



#### **BLS** INTERNATIONAL SERVICES LIMITED CIN: L51909DL1983PLC016907 नजरूल के बयान के दो दिन बाद हुआ है। INTERNATIONAL Regd. Office: G-4, B-1, Extension, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044 Tel. No.: 011-45795002 Fax: 011-23755264 Email: compliance@blsinternational.net, Website: ww STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024 21.4% 89.1% Rs. 164 Rs. 495

Cr. REVENUE Figures above depict year on year comparison

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS OF RESULTS

- BLS International reported highest-ever financial performance in Q2FY25.
- Revenue from Operations grew by 21.4% YoY to Rs. 495.0 Crores in Q2FY25 as compared to Rs. 407.7 Crores in Q2FY24

Q2FY25 EBITDA grew by 89.1% to Rs. 164.0 Crores from Rs. 86.7 Crores in Q2FY24. EBITDA Margin expanded to 33.1% in Q2FY25 from 21.3% in Q2FY24. Margin expansion was primarily due to the ongoing transition from partner run to self-managed model and the acquisition of iDATA, turkey which we acquired in July 2024

Cr.

EBITDA

Management continues to focus on improving profitability and cash generation as key business performance metrics. Post iDATA acquisition of ~Rs. 720 Crores in Q2FY25.

The company's net cash balance stood at Rs. 902 Crores as of 30th September 2024. The Company has generated significant returns for its shareholders: ROCE at 26.8% & ROE at 31.5% (based on H1FY25 annualized financials)

Consolidated financial results:-

(Rs. in Crores) Year Ended

w.blsinternational.con

77.7%

Rs. 145.7

Cr.

PAT



डीआईएन : 00014942

Place : New Delhi Date : 11th November, 2024

∎पीटीआई, चुराचंदपुर (मणिपुर)

मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में मंगलवार

को पूर्ण बंद के कारण कर्फ्यू जैसे हालात

रहे। स्कूल और कॉलेज, बाजार बंद रहे

और वाहन सड़कों से नदारद रहे। कुकी-

जो परिषद ने सोमवार को जिरीबाम में

मारे गए लोगों के प्रति दुख जताते हुए बंद

का आह्वान किया था। मणिपुर पुलिस ने

कहा कि सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ

मुठभेड़ में 10 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए।

कथित वर्दी पहने और आधुनिक हथियारों

बोरोबेक्रा थाने और पास के सीआरपीएफ

कुकी छात्र संगठन (केएसओ) ने एक

बयान में कहा, '... किसी भी सीआरपीएफ

कैंप पर फायरिंग की थी। हालांकि

एक सरकारी अधिकारी ने मारे

गए उग्रवादियों की संख्या 11

बताई। विभिन्न कुकी-जो संगठनों

ने केंद्रीय बलों पर निशाना साधते

हुए जिरीबाम में हुई घटनाओं की

जांच की मांग की।

## फटाफट खबरे मलयालम ऐक्टर को रेप केस में राहत

विस, नई दिल्लीः मलयालम फिल्म एक्टर और रेप मामले में आरोपी सिद्दीकी को दी गई अंतरिम प्रोटेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अगूवाई वाली बेंच ने 30 सितंबर को अतंरिम प्रोटेक्शन का आदश दिया था और उस आदेश को आगे बढ़ा दिया है। सिद्दीकी की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनका गला खराब है और बहस करने के लिए वक्त चाहिए।

# वक्फ में संशोधन से पहले केस नहीं: HC

पीटीआई, कोच्चिः केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि वक्फ एक्ट की धारा 52ए, जिसे 2013 में संशोधन के जरिए शामिल किया गया था, यह नहीं कहती कि वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बिना ऐसी जमीन को अलग करने के लिए उससे पहले वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने वालों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने यह टिप्पणी डाक विभाग के दो अधिकारियों के खिलाफ वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना वक्फ संपत्ति को अलग करने के आरोप में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए की।

	3.		
दिनांक	: 12	नवम्बर,	2024

हमें फॉलो करें : 🕤 in 💟 🕨

ऊनो मिंडा लिमिटेड ऊनो मिंडा समूह की एक प्रमुख कंपनी है। यह समूह भारत और दुनिया भर के सभी प्रमुख ओईएम को टियर 1 ऑटो कंपोनेंट सप्लायर है। यह ऑटोमोटिव स्विच, लैंप, बैटरी, हॉर्न, सीएनजी लपीजी किट, ईंधन कैप, इलेक्ट्रॉनिक घटक, एलॉय ह्वील, डाई कास्टिंग और ब्लो मोल्डिंग घटक बनाती है।"

面帶感得到

	Quarter Ended			Hall Tear Ellueu		rear Lindeu	
PARTICULARS	Sep 30, 2024	June 30, 2024	Sep 30, 2023	Sep 30, 2024	Sep 30, 2023	March 31, 2024	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
Total Income from Operations	495.01	492.67	407.74	987.68	791.22	1,676.81	
Net Profit for the period (before tax & exceptional items)	163.96	134.71	87.18	298.67	167.62	352.07	
Net Profit for the period (after tax & exceptional items)	145.73	120.78	82.00	266.52	152.99	325.62	
Total Comprehensive Income for the period		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
[Comprising Profit for the period (after tax) and Other							
Comprehensive Income (after tax)]	126.99	119.78	95.91	246.78	167.96	336.34	
Paid Up Equity Share Capital (Face Value Re. 1/- each)	41.17	41.17	41.17	41.17	41.17	41.17	
Earning per Share (EPS)(not Annualised)							
(a) Basic EPS - Rs.	3.36	2.77	1.91	6.13	3.59	7.60	
(b) Diluted EPS - Rs.	3.36	2.77	1.91	6.13	3.59	7.60	
Notes: 1. Key Standalone financial Information is as under :-					r Ended	(Rs. in Crores)	
	Quarter Ended			N N	Year Ended		
PARTICULARS	Sep 30, 2024	June 30, 2024	Sep 30, 2023	Sep 30, 2024	Sep 30, 2023	March 31, 2024	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
Total Income from Operations	34.25	37.69	27.57	71.94	55.11	118.64	
Net Profit for the period (before tax & exceptional items)	18.15	1.96	15.76	20.11	18.71	40.21	
Net Profit for the period (after tax & exceptional items)	18.67	1.45	14.79	20.12	16.94	37.01	
Total Comprehensive Income for the period		2				ž.	
[Comprising Profit for the period (after tax) and Other							
Comprehensive Income (after tax)]	18.65	1.44	14.86	20.09	17.08	36.96	
<ol> <li>The above Financial Results were reviewed and recomm meetings held on November 11, 2024. These results Requirements),2015 by the statutory auditors who have exchanges.</li> <li>The Group has acquired 100% stake of Citizenship Invest</li> </ol>	have been subje expressed an ur	cted to limited re modified conclus	view as required ion and the relate	under SEBI (L ed report is being	isting Obligation submitted to the	s and Disclosur concerned stoc	

The Holding Company has acquired 51% stake of SLW Media Private Limited ("SLW") on 17th October 2024 BLS E-Services Limited (subsidiary of Holding Company) has entered into a definitive share purchase agreement w.r.t to invest and acquire 57% equity shares of Aadifidelis Solutions Private Ltd. and it's Affiliates.

On July 9,2024 BLS International FZE acquired 100% equity share capital of iDATA Danişmanlık ve Hizmet Dış Ticaret Anonim Şirketi ""iData"" for a consideration of Rs. 719.73 Crores. The fair value of assets and liabilities acquired have been determined provisionally in accordance with IND AS 103 'Business Combinations' The excess of the consideration paid over the provisional fair value of net assets acquired of iData has resulted in a Goodwill amounting to Rs. 583.78 Crores. The Group believes that the information provides a reasonable basis for estimating the fair value of assets and liabilities acquired, but the potential for measurement period adjustments exists based on a continuing review of matters related to acquisition. The purchase price allocation is expected to be completed with in the current financial year. The above consolidated financial results for the quarter ended September 30, 2024 include the results of iData for the period starting from July 9, 2024 and hence not comparable with previous period."

The equity shares of the BLS E-Services Limited ("subsidiary company") got listed on BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE" on February 06, 2024.

BLS E-Services Limited (subsidiary of Holding Company) has received an amount of Rs 309.29 Crores being Gross proceeds from fresh issue of equity shares. Ne proceeds after issue expenses in relation to Fresh issue are proposed to be utilized and the utilization thereof are summarized as below (Pe in Crores)

OBJECT(S)	Amount as per final offer document	Amount utilised upto Sep 30,2024	Total unutilized amoun upto Sep 30,2024
Strengthening our technology infrastructure to develop new capabilities and		ř. – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	
consolidating our existing platforms	97.59	1.07	96.52
Funding initiatives for organic growth by setting up of BLS Stores	74.78	(e)	74.78
Achieving inorganic growth through acquisitions	28.71	2.01	28.71
General Corporate Purpose	76.66		76.66
Total	277.74	1.07	276.67

IPO proceeds which were un-utilized as at September 30,2024 were temporarily invested in term deposit amounting to Rs. 273.19 crores with scheduled bank and the balance amount lying in the Public Issue & Monitoring account.

The above is an extract of the detailed format of Quarter & Year ended Financial Results filed with the stock Exchanges Under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarter & Year ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com, www.bseindia.com and www.msei.in) and hosted on the company's website at (www.blsinternational.com)

> For BLS International Services Limited Diwakar Aggarwal Chairman DIN 00144645